



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 8, 2006/कार्तिक 17, 1928

No. 80]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 8, 2006/KARTIKA 17, 1928

भारत निर्वाचन आयोग

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2006

आ.अ. 108(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अन्तर्गत जारी केरल से राज्य सभा के लिये द्विवार्षिक निर्वाचन कार्यक्रम के बारे में आयोग की तारीख 9 जून, 2006 की अधिसूचना संख्या 318/रा.स./केरल/2006(1) के हिन्दी रूपान्तर में, राजपत्र संख्या आ.अ. 54(अ) में गलती से मतदान की तारीख और वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन पूरा कर लिया जाएगा, 16 जून, 2006 और 9 जून, 2006 मुद्रित हो गया है, इसे क्रमशः 26 जून, 2006 और 29 जून, 2006 पढ़ा जाए।

[सं. 318/राज्य सभा-केरल/2006]

आदेश से,

ए. के. मजूमदार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

CORRIGENDUM

New Delhi, the 8th November, 2006

O. N. 108(E).—In Hindi version of Commission's Notification No. 318/CS-KL/2006(1) dated 9th June, 2006 issued under Section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), regarding Biennial Election programme to the Council of States from Kerala, the date of poll and the date before which the election shall be completed, have been printed erroneously in the Gazette No. O.N. 54(E) as 16th June, 2006 and 9th June, 2006 which may be read as 26th June, 2006 and 29th June, 2006 respectively.

[No. 318/CS-KL/2006]

By Order,

A. K. MAJUMDAR, Secy.